



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1944 (श10)

(सं0 पटना 595) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

सं0 27/आरोप-01-25/2021-सा0प्र0-11232

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 जुलाई 2022

श्री राजेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-986/11 तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेखपुरा के पदस्थापन काल में भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-84/2014-15 में दिनांक 08.12.2014 को अपने प्रदत्त शक्ति से परे आदेश पारित करने, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वत्व के मामले में निर्णय देने, आयुक्त न्यायालय के निर्णय के बाद भी एक मामले में किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए गलत निदेश निर्गत करने, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रहते हुए भी दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत अनुसेवी से आदेश लिखवाए जाने तथा आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के स्थगन आदेश के बावजूद गैरमजरूआ भूमि पर आवेदक के दाखिल कब्जा को बरकरार रखने का आदेश पारित करने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 486 दिनांक 01.06.2015 एवं पूरक आरोप पत्र पत्रांक 567 दिनांक 24.06.2015 द्वारा प्राप्त हुआ।

2. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र के आधार पर इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-7390, दिनांक 25.05.2016 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण (दिनांक 27.04.2017) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा कंडिकावार रूप से आरोप का प्रतिवाद करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 29.01.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 301 दिनांक 11.06.2018 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है।

4. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15959 दिनांक 06.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2987 दिनांक 27.08.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 12595 दिनांक 26.10.2021 द्वारा लिखित अभिकथन की

मांग की गयी। स्मारोपरान्त एवं श्री प्रसाद को अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा बचाव-बयान/लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

6. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा टाइटिल मुद्दे को भी सुनवाई करके आदेश दिया गया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। भूमि संबंधी विवाद को निपटान विधि सम्मत नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित करना, नियमानुसार कार्रवाई न करना, उनके स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही का द्योतक है। साथ ही लगातार स्मारोपरान्त एवं अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के बावजूद भी बचाव-बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध नहीं कराया जाना उनके स्वेच्छाचारिता को ही दर्शाता है।

इस प्रकार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-986/11 तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत संगत प्रावधानों के तहत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15) की शास्ति का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव श्री राजेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-986/11 तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत संगत प्रावधानों के तहत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15) की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 595-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>